

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 151] नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 25, 1979/ श्रावण 3, 1901
No. 151] NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 25, 1979/SRAVANA 3, 1901

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती हैं जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation.

वाणिज्य, नागरिक आपूर्ति एवं सहकारिता मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

सार्वजनिक सूचना सं० 50-ई टी सी (पी एन)/79

नई दिल्ली, 25 जुलाई, 1979

निर्यात व्यापार नियंत्रण

विषय --1979-80 के दौरान खोहा और इस्पात सबों का निर्यात।

मिनिम सं० 5(6)/79-ई 2--उपर्युक्त विषय पर, भारत के असाधारण राजपत्र में प्रकाशित
निर्वात (नियंत्रण) सशोधन आदेश सं० ई (सी) घो, 1977/ए एम (128) दिनांक 25 जुलाई,
1979 की ओर ध्यान दिलाया जाता है।

निर्यात नीति पुस्तक, 1979-80 के पृष्ठ 22 पर नीति विवरण की क्रम सं० 80(4) के सामने के कालम 2 में और पृष्ठ 28 पर अनुबन्ध 1 की क्रम सं० 27(4) पर प्रवर्तित विद्यमान प्रविष्टियों को निम्न प्रकार से पढ़ने के लिए संशोधित किया जाएगा :—

“खिड़कियों, दरवाजों एवं रोशनदानों के सेक्शन को छोड़कर रोल्ड स्ट्रक्चरल सेक्शन ।

3. तबनुसार, निर्यात नीति, 1979-80 के पृष्ठ 23 पर नीति विवरण में क्रम संख्या 80(18) के बाव निम्नलिखित प्रविष्टि जोड़ी जाएगी :—

क्रम सं०	विवरण	नीति
19	खिड़की, दरवाजा और रोशनदान सेक्शन ।	इंजीनियरी निर्यात संवर्धन परिषद के पास पंजीकृत संशोधनों के मुद्दे स्वतंत्र रूप से अनुमति दी जाएगी ।

सी० वेंकटरमन, मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात

MINISTRY OF COMMERCE, CIVIL SUPPLIES & CO-OPERATION

(Department of Commerce)

PUBLIC NOTICE NO. 50-ETC(PN)/79

New Delhi, the 25th July, 1979

EXPORT TRADE CONTROL

Subject.—Export of Iron and Steel items during 1979-80.

File No. 5(6)/79-EH.—Attention is invited to the Exports (Control) Amendment Order No. E(C)O, 1977/AM(126), dated the 25th July, 1979, published in the Gazette of India Extraordinary on the above subject.

2. The existing entries appearing in column 2 against S. No. 80(4) of Policy Statement on page 22 and S. No. 27(4) of Annexure I on page 28 of Export Policy Book, 1979-80 shall be amended to read as under :—

“Rolled structural sections excluding window, door and ventilator sections”.

3. Accordingly the following entry shall be added after S. No. 80(18) in the Policy Statement on page 23 of Export Policy Book, 1979-80.

S. No.	Item	Policy
19.	Window door and ventilator sections.	Licensed freely against contracts registered with the Engineering Export Promotion Council.

C. VENKATARAMAN,

Chief Controller of Imports & Exports